



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2010/अग्रहायण 5, 1932

No. 2410]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2010/AGRAHAYAN 5, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2010

का.आ. 2844(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3119(अ), तारीख 4 दिसम्बर, 2009, और का.आ. 631(अ), तारीख 22 मार्च, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 20.500 कि.मी. से 44.200 कि.मी. (दिल्ली-आगरा सेक्शन) तक के भू-खण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन प्रथम अधिसूचना का सार तारीख 22 दिसम्बर, 2009, को "टाइम्स आफ इंडिया" और "दैनिक जागरण" दोनों में तथा दूसरी अधिसूचना का सार तारीख 8 अप्रैल, 2010, को "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 20.500 किलोमीटर से 44.200 किलोमीटर तक (दिल्ली आगरा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का सक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				आयत संख्या	खसरा संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	फरीदाबाद	1. बल्लभगढ़	सीकरी	4//	1/1	निजी	गैर कृषि	126.465	मन्दिर ठाकुर जी महाराज
					10/1	निजी	गैर कृषि	430.152	मन्दिर ठाकुर जी महाराज
					10/2	निजी	कृषि	25.293	उदयराम पुत्र गोविन्द सिंह
					11	निजी	कृषि	440.878	मन्दिर ठाकुर जी महाराज
					20	निजी	कृषि	464.055	मन्दिर ठाकुर जी महाराज
					21	निजी	कृषि	66.539	मैसर्स महावीर ऐवन कौशिक प्रा० लि०
				5//	5 मिन	निजी	कृषि	कम अज मरला	उदयराम पुत्र गोविन्द सिंह
					6 मिन	निजी	कृषि	227.637	उदयराम पुत्र गोविन्द सिंह
					15 मिन	निजी	कृषि	278.223	उदयराम पुत्र गोविन्द सिंह, पूरण पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र किशन सहाय
					16/1	निजी	कृषि	25.293	मन्दिर ठाकुर जी महाराज
					16/2 मिन	निजी	कृषि	278.223	पूरण पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र किशन सहाय
					25/1 मिन	निजी	कृषि	252.930	पूरण पुत्र गोविन्द सिंह पुत्र किशन सहाय, गायत्री देवी पत्नी हरीशकर
					25/2	निजी	गैर कृषि	541.712	मैसर्स महावीर ऐवन कौशिक प्रा० लि०
				8//	4 मिन	निजी	कृषि	25.293	माणेराम पुत्र गोविन्द, गायत्री पत्नी हरीशकर
					5/1 मिन	निजी	कृषि	202.344	श्रीमती गायत्री पत्नी हरीशकर, माणेराम पुत्र गोविन्द
					5/2 मिन	निजी	कृषि	628.973	नितिन सेठ पुत्र विजय सेठ, विजय सेठ पुत्र ओमप्रकाश, पुनीत गोयल पुत्र अनिल गोयल खानाकाशत पुनीत गोयल पुत्र अनिल गोयल पट्टेदार
					144	पंचायत	रास्ता	25.293	पंचायत देह
					6	निजी	कृषि	617.346	वीरेन्द्र मोहन पुत्र आर० एस०, हीरानन्द पुत्र तुलसाराम, सुखपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह, राजीव पुत्र भगतराम
					7 मिन	निजी	कृषि	252.930	श्रीमती सरोज रानी पत्नी रामसरूप पुत्र ज्योतिप्रसाद
					14 मिन	निजी	कृषि	252.930	श्रीमती पुष्पा पत्नी विश्वबन्धू पुत्र लाजपतराय
					15	निजी	कृषि	622.488	सत्यभूषण पुत्र आर० एस०, हीरानन्द पुत्र तुलसाराम, सुखपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह, राजीव पुत्र भगतराम
					16	निजी	कृषि	522.766	मै० सतीश बिल्डवैल प्रा० लि०
					17/1	निजी	कृषि	101.172	मै० सतीश बिल्डवैल प्रा० लि०
					17/2 मिन	निजी	कृषि	252.930	आशू पुत्र विश्वबन्धू पुत्र के. एल. आर कबजा जवाहर सिंह आदि
					24/1 मिन	निजी	कृषि	303.516	विश्वबन्धू पुत्र लाजपतराय
					24/2	निजी	कृषि	591.828	चेतीलाल पुत्र हीरालाल पुत्र गिरधारी खानाकाशत सरूपसिंह पुत्र लेखराम पट्टेदार
					25 मिन	निजी	कृषि	25.320	चेतीलाल पुत्र हीरालाल पुत्र गिरधारी खानाकाशत सरूपसिंह पुत्र लेखराम पट्टेदार
				14//	3 मिन	निजी	कृषि	101.172	विश्वबन्धू पुत्र लाजपतराय
					4/1	निजी	कृषि	278.223	विश्वबन्धू पुत्र लाजपतराय
					26	निजी	कृषि	622.579	चेतीलाल पुत्र हीरालाल पुत्र गिरधारी खानाकाशत सरूपसिंह पुत्र लेखराम पट्टेदार
					7	निजी	कृषि	629.349	चेतीलाल पुत्र हीरालाल पुत्र गिरधारी खानाकाशत सरूपसिंह पुत्र लेखराम पट्टेदार

				8 मिन	निजी	कृषि	429.981	श्री लक्ष्मी देवी पत्नी जिले सिंह, महावीर, ओमवीर, दलवीर, रणवीर पुत्रान व श्रीमति भूखाई, राजप्यारी पुत्रीयान नारायण सिंह
				13 मिन	निजी	कृषि	379.395	श्री लक्ष्मी देवी पत्नी जिले सिंह, महावीर, ओमवीर, दलवीर, रणवीर पुत्रान व श्रीमति भूखाई, राजप्यारी पुत्रीयान नारायण सिंह
				14 मिन	निजी	कृषि	644.729	अनिल कुमार पुत्र भोलाराम पुत्र उधोदास, श्रीमती काजल अरोडा पत्नी अनिल कुमार मालीक कबजा जगजीत सिंह, कृष्ण पाल सिंह पिसरान व श्रीमती किरण बाई पुत्री हरी सिंह
				रास्ता 145	पंचायत	रास्ता	50.586	पंचायत देह
				17	निजी	कृषि	558.934	मैसर्स बैदा कैन्सल्लैन प्रा० लि०
				18/1	निजी	कृषि	202.344	मैसर्स बैदा कैन्सल्लैन प्रा० लि०
				18/2 मिन	निजी	कृषि	303.516	श्री लक्ष्मी देवी पत्नी जिले सिंह, महावीर, ओमवीर, दलवीर, रणवीर पुत्रान व श्रीमति भूखाई, राजप्यारी पुत्रीयान नारायण सिंह
				23/1	निजी	कृषि	252.930	सवीता लाकरा, सिवानी लाकरा, कुमारी असी लाकरा व श्रीमती लक्ष्मी विधवा जिले सिंह
				23/2	निजी	कृषि	780.351	आनन्द पुत्र शान्तिसरूप पुत्र मोहरचन्द
				24	निजी	कृषि	25.293	आनन्द पुत्र शान्तिसरूप पुत्र मोहरचन्द
			19//	2 मिन	निजी	कृषि	227.637	जीतसिंह पुत्र हजार सिंह
				3/1 मिन	निजी	कृषि	25.293	जीतसिंह पुत्र हजार सिंह
				3/2	सरकारी	गैर कृषि	817.428	गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
				8	सरकारी	गैर कृषि	836.875	गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
				9 मिन	निजी	कृषि	278.223	जीतसिंह पुत्र हजार सिंह
				12/1 मिन	निजी	कृषि	252.930	जगराम पुत्र लालचन्द पुत्र गंगा सहाय
				12/2	सरकारी	गैर कृषि	278.223	गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
				13	सरकारी	गैर कृषि	536.980	गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया
				19/1	पंचायत	गैर कृषि	838.075	पंचायत देह
				19/2	निजी	कृषि	227.637	जगराम पुत्र लालचन्द पुत्र गंगा सहाय
				20 मिन	निजी	कृषि	25.293	जगराम पुत्र लालचन्द पुत्र गंगा सहाय
				21	निजी	गैर कृषि	252.930	अशोक, सुनील, जयभगवान, हर्ष पुत्रान व श्रीमती गीता, राजेश्वरी पुत्रीयान व श्रीमती कान्ती देवी विधवा बाबूराम, गंगाराम, अमरसिंह, राजेन्द्र पुत्रान अमीचन्द, आशाराम पुत्र मुन्शीराम
				22	पंचायत	गैर कृषि	838.075	पंचायत देह
			24//	148 रास्ता	पंचायत	रास्ता	25.293	पंचायत देह
				1 मिन	निजी	कृषि	278.523	राजकुमार, कवरसैन पुत्रान रतन सिंह पुत्र मुक्तयार सिंह, मै रॉयल इम्बोडरी खानाकाश सतीशचन्द पुत्र जगदीशचन्द
				2	पंचायत	गैर कृषि	838.075	पंचायत देह
				9	निजी	कृषि	105.257	राजकुमार कवरसैन पुत्रान रतन सिंह पुत्र मुक्तयार सिंह
				10/1	निजी	कृषि	731.818	राजकुमार कवरसैन पुत्रान रतन सिंह पुत्र मुक्तयार सिंह
				10/2	निजी	गैर कृषि	177.051	मैसर्स जे सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० श्रीमती कमलाबाई विधवा व राजेन्द्र पुत्र हसराम, संतोष पत्नी विनोद, मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मै० भू लाल जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० खानाकाश मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि० पट्टेदार
				147 रास्ता	पंचायत	रास्ता	55.872	पंचायत देह

					11/1	निजी	गैर कृषि	50.586	मैसर्स जे सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० श्रीमती कमलाबाई विघवा व राजेन्द्र पुत्र हंसराज, संतोष पत्नी विनोद, मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मै० भू लाल जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० खानाकाशत मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि० पट्टेदार
					11/2	निजी	गैर कृषि	782.204	भूपेन्द्र पुत्र सुल्तान पुत्र गुक्तयार सिंह, श्रीमती नारायणी देवी पत्नी महावीर व महावीर पुत्र रतनलाल
					20	निजी	कृषि	859.190	मैसर्स राईजिंग एजुकेशन सोसायटी
					21	निजी	कृषि	285.748	मैसर्स राईजिंग एजुकेशन सोसायटी
			25//	15	निजी	कृषि		177.051	मैसर्स जे सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० श्रीमती कमलाबाई विघवा व राजेन्द्र पुत्र हंसराज, संतोष पत्नी विनोद, मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मै० भू लाल जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० खानाकाशत मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मैसर्स दोन्सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० पट्टेदारान
					16	निजी	कृषि	202.344	मैसर्स जे सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० श्रीमती कमलाबाई विघवा व राजेन्द्र पुत्र हंसराज, संतोष पत्नी विनोद, मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मै० भू लाल जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० खानाकाशत मैसर्स भू जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० पट्टेदार
					25/1	निजी	कृषि	303.516	मैसर्स जे सी इन्टरप्राइजिज प्रा० लि० श्रीमती कमलाबाई विघवा व राजेन्द्र पुत्र हंसराज, संतोष पत्नी विनोद, मैसर्स स्वराज सैनी इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मै० भू लाल जी वाटर इण्डिया प्रा० लि० खानाकाशत अरुण चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान पट्टेदार
					25/2	निजी	गैर कृषि	556.446	मैसर्स राईजिंग एजुकेशन सोसायटी
			29//	4 मिन	पंचायत	गैर कृषि		303.516	पंचायत देह
					5/1	निजी	गैर कृषि	126.465	पंचायत देह खानाकाशत रती पुत्र सुक्कन पुत्र वल्ला निवासी साहपुर खुर्द गैर मौ०
					150 रास्ता	पंचायत	रास्ता	50.586	पंचायत देह
					5/2	निजी	कृषि	784.083	विनोद कुमार, संजय कुमार पुत्रान रामसरन खानाकाशत कैलाशचन्द पुत्र रामशरन पट्टेदार
					6	निजी	गैर कृषि	758.790	विनोद कुमार, संजय कुमार पुत्रान रामसरन खानाकाशत कैलाशचन्द पुत्र रामशरन पट्टेदार
					7	पंचायत	गैर कृषि	177.051	पंचायत देह
					14/1	पंचायत	गैर कृषि	177.051	पंचायत देह
					14/2	निजी	कृषि	202.344	विनोद कुमार, संजय कुमार पुत्रान रामसरन खानाकाशत कैलाशचन्द पुत्र रामशरन पट्टेदार
					15	निजी	कृषि	531.153	विनोद कुमार, संजय कुमार पुत्रान रामसरन खानाकाशत कैलाशचन्द पुत्र रामशरन पट्टेदार
					16	निजी	कृषि	25.293	गिरिश कुमार, पंकज कुमार पुत्रान मंगतराम पुत्र सोहनलाल
					17/1	निजी	कृषि	682.911	गिरिश कुमार, पंकज कुमार पुत्रान मंगतराम पुत्र सोहनलाल
					17/2	पंचायत	गैर कृषि	429.981	पंचायत देह
					24/1	पंचायत	गैर कृषि	428.017	पंचायत देह
					24/2	निजी	कृषि	505.860	गिरिश कुमार, पंकज कुमार पुत्रान मंगतराम पुत्र सोहनलाल
			36//	4/1	पंचायत	गैर कृषि		56.121	पंचायत देह
					4/2/1	निजी	कृषि	151.758	गिरिश कुमार, पंकज कुमार पुत्रान मंगतराम पुत्र सोहनलाल
					4/3/2	निजी	कृषि	227.637	इन्दरपाल पुत्र डाकर सिंह
					7 मिन	निजी	कृषि	505.860	महेन्द्र सिंह पुत्र डाकरसिंह, धर्मसिंह पुत्र डिगम्बर सिंह, सिंहराम पुत्र डिगम्बर
					14 मिन	निजी	कृषि	202.344	सिंहराम पुत्र डिगम्बर, नत्थी सिंह पुत्र डिगम्बर सिंह

				26 मिन	निजी / पंचायत	गैर कृषि	278.223	महेन्द्र सिंह आदि मुदरजा खेवट नं० 425 श्रीमती मधुसिंह पत्नी उदय सिंह, श्रीमती सीएडाई विधवा रोहताश, ओमवती विधवा मोमजीत, रिकू पुत्र जीतसिंह, संगीता पत्नी देवेन्द्र, पंचायत
				78	वक्फ बोर्ड	कब्रिस्तान	531.153	हरियाणा वक्फ बोर्ड
				116 मिन	निजी	गैर कृषि	252.930	नेतराम पुत्र फूलचन्द पुत्र चेताराम व प्रेमवती पत्नी लखमीचन्द, दिनेश पुत्र पहलाद
				115 मिन	निजी	रिहाइश क्षेत्र	343.224	शामलात देह
				103 रास्ता	पंचायत	रास्ता	25.293	पंचायत देह
				111	पंचायत	रिहाइश क्षेत्र	50.586	पंचायत देह मकबुरा वाशिन्दगान
			45//	104	पंचायत	रिहाइश क्षेत्र	75.879	पंचायत देह
				3	निजी	कृषि	50.586	जीतसिंह पुत्र किशोरी सिंह पुत्र किशनराम, रिनको पुत्र जीतसिंह, विक्रम पुत्र बोरवल, नीरज चौधरी पुत्र योगेन्द्र सिंह, उमेश कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रान बस्तीराम
				4 मिन	निजी	कृषि	303.516	जीतसिंह पुत्र किशोरी सिंह पुत्र किशनराम, रिनको पुत्र जीतसिंह, विक्रम पुत्र बोरवल, नीरज चौधरी पुत्र योगेन्द्र सिंह, उमेश कुमार, प्रदीप कुमार पुत्रान बस्तीराम, जयकिशन पुत्र धर्मसिंह, नाहरसिंह, मोहनसिंह पुत्रान बोरसिंह, अजय पुत्र बहादुर, अब्दुल पुत्र इजराइल, राकेश पुत्र बहादुर, बृजलाल पुत्र रनजीत
				7 मिन	निजी	गैर कृषि	25.293	श्रीमती सिएडाई विधवा रोहताश, बाबू सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेरसिंह पुत्रान ओमवीर, हरपाल सिंह पुत्र कान्हा सिंह, ओमवती विधवा मोमजीत
				8	निजी	गैर कृषि	202.344	श्रीमती सिएडाई विधवा रोहताश, बाबू सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेरसिंह पुत्रान ओमवीर, हरपाल सिंह पुत्र कान्हा सिंह
				117 मिन	निजी	प्लॉट	761.313	हरपाल पुत्र पतराम, ग्यारी पुत्र फुलन, मटरु पुत्र अल्लाबख्श, बदलु पुत्र नवी बख्श, कमल सिंह पुत्र बदलु, हरी सिंह पुत्र ननवा, राम दल पुत्र पुरन, रोहतास पुत्र प्रभाती
				26	निजी	गैर कृषि	75.879	दीपचन्द, रूपचन्द पुत्रान हरचन्दी, दिनेश, दुर्गाप्रसाद, राकेश, संजय, मुकेश कुमार, शिव कुमार पुत्रान लखमी पुत्र नानकचन्द
				27 मिन	निजी	गैर कृषि	177.051	दीपचन्द, रूपचन्द पुत्रान हरचन्दी, दिनेश, दुर्गाप्रसाद, राकेश, संजय, मुकेश कुमार, शिव कुमार पुत्रान लखमी पुत्र नानकचन्द
				13 मिन	निजी	गैर कृषि	75.879	लखमी पुत्र नानकचन्द, अतर सिंह पुत्र चन्दर सिंह, खजान पुत्र लालचन्द, मोतीराम पुत्र खजान, श्रीमती मालवती पत्नी मामचन्द
				18/1 मिन	निजी	गैर कृषि	328.809	इन्दराज व राजपाल पुत्रान शोदान, श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी रूपचन्द, नेतराम पुत्र हरीसिंह पुत्र घनश्याम, जोगिन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान हृदयराम
				22 मिन	निजी	गैर कृषि	101.172	मैसर्स फ्रान्सा, अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द, धर्मवीर पुत्र भिल्लर, हरीओम, ओमवीर पुत्रान व श्रीमती मायावती विधवा महावीर, मैसर्स केशव डायरिटेक रामचन्द पुत्र होतीराम, भागमल पुत्र खवेड़, ज्ञानवती पत्नी ओमप्रकाश, मोहनदीप सोडी पुत्र गुरचरण, नारायण सिंह पुत्र हेतलाल, रामवती पत्नी नारायण सिंह, सोहनपाल पुत्र टेकचन्द, श्रीमती विमला रानी पत्नी जी आर पी गोयल, अजय पुत्र फतेहचन्द, विरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रान हुकमसिंह, नेमचन्द पुत्र नेतराम, शशीकान्त पुत्र गुरदयाल, गुग्गीत पुत्र देवेन्द्र खानाकाश मैसर्स बाधवा इन्जिनियरिंग कम्पनी पट्टेदार

				23/1 मिन	निजी	गैर कृषि	19.727	मैसर्स फ्रान्सा, अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द, धर्मवीर पुत्र भिल्लर, हरीओम, ओमवीर पुत्रान व श्रीमती मायावती विधवा महावीर, मैसर्स केशव डायरिटेक रामचन्द पुत्र होतीराम, भागमल पुत्र खचेडू, ज्ञानवती पत्नी ओमप्रकाश, मोहनदीप सोडी पुत्र गुरचरण, नारायण सिंह पुत्र हेतलाल, रामवती पत्नी नारायण सिंह, सोहनपाल पुत्र टेकचन्द, श्रीमती विमला रानी पत्नी जी आर पी गोयल, अजय पुत्र फतेहचन्द, विरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रान हुकमसिंह, नेमचन्द पुत्र नेतराम, शशीकान्त पुत्र गुरदयाल, गुरमीत पुत्र देवेन्द्र खानाकाशत मैसर्स वाधवा इन्जिनियरिंग कम्पनी पटटेदार
				23/2/2 मिन	निजी	कृषि	कम अज मरला	मैसर्स जोहर मोटर्स खानाकाशत इण्डियन ऑयल कारपोरेश लि0 पटटेदार
				28/2	निजी	गैर कृषि	328.809	फतेसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व चन्द्रकली, प्रकाशवती, राजवती, अमरबाई पुत्रीयान व श्रीमती अतरबाई विधवा मुरली सिंह पुत्र बेदराम, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती कुनेश, कैलाश व अलका पुत्रीयान व श्रीमती खजानी विधवा रोहताश पुत्र रामचन्द, गिर्राज पुत्र रामचन्द, श्रीमती मधु पत्नी नरेन्द्र सिंह पुत्र अंगद व यशपाल सिंह पुत्र अंगदसिंह मैसर्स जोहर मोटर्स खानाकाशत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
				सड़क	सरकारी	सड़क	35/442	हरियाणा सरकार
			52II	2	निजी	गैर कृषि	303.516	मैसर्स फ्रान्सा, अनिल कुमार पुत्र रमेश चन्द, धर्मवीर पुत्र भिल्लर, हरीओम, ओमवीर पुत्रान व श्रीमती मायावती विधवा महावीर, मैसर्स केशव डायरिटेक रामचन्द पुत्र होतीराम, भागमल पुत्र खचेडू, ज्ञानवती पत्नी ओमप्रकाश, मोहनदीप सोडी पुत्र गुरचरण, नारायण सिंह पुत्र हेतलाल, रामवती पत्नी नारायण सिंह, सोहनपाल पुत्र टेकचन्द, श्रीमती विमला रानी पत्नी जी आर पी गोयल, अजय पुत्र फतेहचन्द, विरेन्द्र, राजेन्द्र पुत्रान हुकमसिंह, नेमचन्द पुत्र नेतराम, शशीकान्त पुत्र गुरदयाल, गुरमीत पुत्र देवेन्द्र खानाकाशत मैसर्स वाधवा इन्जिनियरिंग कम्पनी पटटेदार
				3/1/2	निजी	कृषि	126.465	मैसर्स जोहर मोटर्स खानाकाशत इण्डियन ऑयल कारपोरेश लि0 पटटेदार
				3/2 मिन	निजी	कृषि	126.465	फतेसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व अतरबाई विधवा, चन्द्रकली, प्रकाशवती, राजवती, अमरबाई पुत्रीयान मुरली, श्रीमती सावित्री पत्नी चन्द्रपाल पुत्र राममेहर, लालूप्रसाद पुत्र प्रभू, गजराज, बलराम पुत्रान रामकिशन, श्रीमती चन्दा देवी पत्नी हरीदत्त, दुर्गाप्रसाद पुत्र शिवचरण, गोपाल पुत्र मोहनश्याम, राजपाल सिंह पुत्रान शिवचरण, सुखपाल सिंह, सुखवीर सिंह, शेरसिंह पुत्र भूपसिंह, नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मैसर्स जोहर मोटर्स प्रा लि0 जगदीश पुत्र रनसिंह, जिले सिंह, बाबूलाल पुत्रान रनसिंह, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती अंजना, सीमा पुत्रीयान व ईश्वर देवी विधवा रामधन, श्रीमती रेखा पत्नी अमरेन्द्र, परमिन्दर अतरेजा पुत्र हुकमचन्द, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हृदयराम, धवन पुत्र ओमप्रकाश

				8/1 मिन	निजी	कृषि	177.051	फतेसिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व अतरबाई विधवा, चन्द्रकली, प्रकाशवती, राजवती, अमरबाई पुत्रायान मुरली, श्रीमती सवित्री पत्नी चन्द्रभाल पुत्र राममेहर, लालूप्रसाद पुत्र प्रभू, गजराज, बलराम पुत्रान रामकिशन, श्रीमती चन्दा देवी पत्नी हरीदत्त, दुर्गाप्रसाद पुत्र शिवचरण, गोपाल पुत्र मोहनश्याम, राजपाल सिंह पुत्रान शिवधरन, सुखपाल सिंह, सुखवीर सिंह, शेरसिंह पुत्र भूपसिंह, नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मैसर्स जोहर मौटर्स प्रा लि० जगदीश पुत्र रत्नसिंह, जिले सिंह, बाबूलाल पुत्रान रत्नसिंह, संजीव कुमार पुत्र व श्रीमती अंजना, सीमा पुत्रायान व ईश्वर देवी विधवा रामधन, श्रीमती रेखा पत्नी अमरेन्द्र, परमिन्दर अतरजा पुत्र हुकमचन्द, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हृदयराम, पवन पुत्र ओमप्रकाश
				8/2	निजी	गैर कृषि	227.637	श्रीमती मीना रानी पुत्री ओमप्रकाश व श्रीमती अन्जुम पत्नी सुदीप, श्रीमती मालवती पत्नी मामचन्द पुत्र श्रीचन्द, प्रेमराज पुत्र बलराम
				9	निजी	गैर कृषि	328.809	मैसर्स फ्रान्सा, दीपक किशोर पुत्र डॉ० योगेन्द्र सिंह, शशी कान्ता पुत्र गुरदयाल, सुरमीत पुत्र देवेन्द्र, मोहनदीप पुत्र गुरचरण, नेमचन्द पुत्र नेतराम, बीरेन्द्र, राजेन्द्र सिंह पुत्रान हुकमसिंह, पुष्पा पत्नी बाबूसिंह, ललित कुमार पुत्र हीरानन्द, अजय पुत्र फतेहचन्द, श्रीमती विमला रानी पत्नी जी आर पी, सोहनपाल पुत्र टेकचन्द, श्रीमती माया पत्नी पुरुषोत्तम, सतोष पत्नी महेशचन्द, रामवती पत्नी महेन्द्र, सोहनपाल पुत्र राजेन्द्र, द्रोपदी देवी पत्नी ओमशरण, ओमशरण पुत्र रामसिंह, हेमलता पत्नी बीरेन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह पुत्र भगवान सिंह, हरकेश सिंह पुत्र भिक्कन सिंह, राजू सिंह, दिनेश सिंह पुत्रान कृष्णपाल, सविता पत्नी बीरेन्द्र, लता पत्नी हेतराम, उषा पत्नी कुलदीप, श्रीमती रेणु पत्नी बीरेन्द्र सिंह, श्रीमती विमला रानी पत्नी राजेन्द्र हुड्डा आदि खानाकाश अशोक बाधवा व श्रीमती मधू पत्नी अशोक बाधवा, परवेश मिश्रा पुत्र एस ए मिश्रा व रणवीर सिंह नारंग पुत्र एस नारंग आदि परदेदारान
				12	निजी	गैर कृषि	328.809	माया पत्नी पुरुषोत्तम, सन्तोष पत्नी महेशचन्द, रामवती पत्नी महेन्द्र, सोहनपाल पुत्र राजेन्द्र, द्रोपदी पत्नी ओमशरण, हेमलता पत्नी बीरेन्द्र, हरकेश पुत्र भिक्कनसिंह, राज, दिनेश पुत्रान कृष्णपाल, श्रीमती सविता पत्नी बिजेन्द्र सिंह, उषा पत्नी कुलदीप, लता पत्नी हेतराम, उर्मिला पत्नी रामवतार खानाकाश मैसर्स बाधवा इन्विनिअरिंग
				13 मिन	निजी	कृषि	556.446	श्रीमती मीना रानी पुत्री ओमप्रकाश व श्रीमती अन्जुम पत्नी सुदीप, श्रीमती मालवती पत्नी मामचन्द पुत्र श्रीचन्द, श्रीमती विद्यावती पत्नी भीमसिंह, जगदीश, जिलेसिंह, बाबूलाल पुत्रान रत्नसिंह
				156 रास्ता	पंचायत	रास्ता	50.586	पंचायत देह
				18	निजी	कृषि	607.032	ओमप्रकाश पुत्र दयाराम, श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामकिशन, श्रीमती कमलेश देवी पत्नी खेमचन्द, ललित कुमार पुत्र नानकचन्द, सुरेश कुमार पुत्र नानकचन्द, राजवीर सिंह, सुभाषचन्द पुत्रान तोलाराम पुत्र जगराम, सुरेश कुमार पुत्र नेतराम, श्रीमती मंजलादेवी पत्नी केदार सिंह पुत्र आतमसिंह, फरीदखान पुत्र हशमल, श्रीमती सुनीता पत्नी कृष्ण कुमार, श्रीमती रूपी बेगम पत्नी लम्पन, हुरून बरूरी पत्नी इंदुखान

				19	निजी	कृषि	202.344	मैसर्स मेलाराम, ओमप्रकाश वेदी एण्ड सन्स इस्टेट प्रा० लि०
				22	निजी	कृषि	126.465	वी एन इन्जीनियर्स
				23	निजी	कृषि	632.325	मिलन वाटिका रिजोर्ट्स
		60//	2/1	निजी	कृषि	177.051	श्रीमती सिमरन पत्नी कोशिनंदर सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह, मोहनी अरोडा पत्नी भगवान दास	
			2/2 मिन	निजी	कृषि	252.930	मिलन वाटिका रिजोर्ट्स प्रा० लि०, कर्म चन्द पुत्र मिठन लाल, धर्म सिंह, नत्थी, सगराम पुत्रान दिमबर सिंह	
			3 मिन	निजी	कृषि	328.809	मिलन वाटिका रिजोर्ट्स प्रा० लि०, कर्म चन्द पुत्र मिठन लाल, धर्म सिंह, नत्थी, सगराम पुत्रान दिमबर सिंह	
			8	निजी	कृषि	25.293	जसप्रीत पुत्र अवतार सिंह	
			9/1	निजी	कृषि	632.325	जसप्रीत पुत्र अवतार सिंह	
			9/2	निजी	कृषि	177.051	श्रीमती मोहनी अरोडा पत्नी भगवानदास	
			12/1	निजी	कृषि	177.051	श्रीमती रीता पत्नी आर० के० पुत्र बी० आर०, मुनेश पुत्र बी० आर० पुत्र लक्ष्मणदास	
			12/2	निजी	कृषि	632.325	चरनप्रीत पुत्र प्रीतपाल सिंह	
			19/1 मिन	निजी	कृषि	682.766	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामगोपाल, महेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह, इन्दरपाल सिंह पुत्रान ठाकर सिंह	
			19/2	निजी	कृषि	177.051	श्रीमती रीता पत्नी आर० के० पुत्र बी० आर०, मुनेश पुत्र बी० आर० पुत्र लक्ष्मणदास	
			22/1	निजी	कृषि	126.465	श्रीमती रीता पत्नी आर० के० पुत्र बी० आर०, मुनेश पुत्र बी० आर० पुत्र लक्ष्मणदास	
			22/2	निजी	कृषि	581.739	मै० गुप्ता इन्जीनियरिंग, श्रीमती रुक्मणि गुप्ता पत्नी महेश कुमार	
			158 रास्ता	पंचायत	रास्ता	कम अज मरला	पंचायत देह	
		67//	2/1/1	निजी	कृषि	50.586	अनिल पुत्र सतपाल व श्रीमती शिखा पत्नी अनिल	
			2/1/2	निजी	कृषि	25.293	मैसर्स पुनीत मारकेन टाईल एण्ड कोडियम प्रा० लि०, मै० दीवान फिनेरिस्ट प्रा० लि०, जितेन्द्र, देवेन्द्र पुत्रान श्यामसुन्दर, श्रीमती रवना पत्नी मोहन व श्रीमती मन्जू पत्नी पवन, दिनेश कुमार पुत्र गिराज प्रसाद, सौरव पुत्र दौलतराम	
			2/2	निजी	कृषि	935.841	मैसर्स एस डी एल भाटी प्रा० लि०	
			9/1 मिन	निजी	गैर कृषि	930.168	मैसर्स एस डी एल भाटी प्रा० लि० बजरिषे डायरेक्टर श्यामलाल, कैलाश कुमार पुत्र नन्दलाल	
			9/2	निजी	गैर कृषि	75.879	मैसर्स पुनीत मारकेन टाईल एण्ड कोडियम प्रा० लि०, मै० दीवान फिनेरिस्ट प्रा० लि०, जितेन्द्र, देवेन्द्र पुत्रान श्यामसुन्दर, श्रीमती रवना पत्नी मोहन व श्रीमती मन्जू पत्नी पवन, दिनेश कुमार पुत्र गिराज प्रसाद, सौरव पुत्र दौलतराम	
			12/1/1	निजी	गैर कृषि	75.879	श्रीमती सिमरन अरोडा पत्नी जोगिन्दर सिंह पुत्र सरदार गुरुवचन सिंह अरोडा, रामकिशन, ओमप्रकाश, सुरजमल, बुधराम, राजदेव पुत्रान शिवलाल	
			12/2/2	निजी	गैर कृषि	885.255	मैसर्स अकासना लिजिंग कम्पनी	
			13	निजी	गैर कृषि	25.293	मैसर्स अकासना लिजिंग कम्पनी	
			18	निजी	गैर कृषि	177.051	मैसर्स अकासना लिजिंग कम्पनी	
			19/1/1	निजी	गैर कृषि	674.479	मैसर्स अकासना लिजिंग कम्पनी	
			19/2/2	निजी	गैर कृषि	126.465	श्रीमती संताष कुकरेजा पत्नी त्रिलोकचन्द कुकरेजा	
			22/1 मिन	निजी	कृषि	202.344	जसपाल सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह, सच्चा घर फरीदाबाद शाखा, मै० मोर्स इनवेस्टमेंट	

				22/2	निजी	कृषि	337.239	उदय सिंह पुत्र जगमल सिंह, धीरज सिंह, पवनसिंह, अभय सिंह पुत्रान व श्रीमती मन्जू देवी विधवा जयवीर सिंह, मनोराम पुत्र हजारी, मानसिंह पुत्र जगमल, विनोद कुमार पुत्र गिरधारी, गिरधारी लाल पुत्र असडामल
				23	निजी	कृषि	379.395	उदय सिंह पुत्र जगमल सिंह, धीरज सिंह, पवनसिंह, अभय सिंह पुत्रान व श्रीमती मन्जू देवी विधवा जयवीर सिंह, मनोराम पुत्र हजारी, मानसिंह पुत्र जगमल, विनोद कुमार पुत्र गिरधारी, गिरधारी लाल पुत्र असडामल
				160 रास्ता	पंचायत	रास्ता	50.586	पंचायत देह
		69//	2/1/1	निजी	कृषि		227.637	जसपाल सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र गुरुवचन सिंह, मै0 मार्स इन्वेस्टमेंट कार्पिंग बल्लभगढ़ मै0 सच्चा घर फरीदाबाद शाखा
			2/2/2	निजी	कृषि		25.293	भूपेन्द्र पुत्र सुलतान पुत्र मुख्तियार सिंह, श्रीमती नरायणी देवी पत्नी महावीर व महावीर पुत्र रत्न लाल
			3	निजी	कृषि		733.497	भूपेन्द्र पुत्र सुलतान पुत्र मुख्तियार सिंह, श्रीमती नरायणी देवी पत्नी महावीर व महावीर पुत्र रत्न लाल
			8	निजी	कृषि		50.586	भूपेन्द्र पुत्र सुलतान पुत्र मुख्तियार सिंह, श्रीमती नरायणी देवी पत्नी महावीर व महावीर पुत्र रत्न लाल
				गौव का कुल क्षेत्रफल			48151.985	

[फा. सं. भाराप्र/सीएमयू/एमटीआर/6 लेनीकरण/3डी/फरीदाबाद/2010]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2010

S.O. 2844(E).—Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3119 (E), dated the 4th December, 2009, and S.O. 631 (E), dated the 22nd March, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 2, on the stretch of land from km. 20.500 to km. 44.200 (Delhi-Agra Section) in District Faridabad in the State of Haryana.

Any whereas the substance of the first notification has been published in the "Times of India" and "Dainik Jagaran", both dated the 22nd December, 2009, and of the second notification in the "Hindustan Times" and "Dainik Jagaran" both dated the 08th April, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declared that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

456040/10-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 20.500 km to 44.200 km (Delhi - Agra Section) of the National Highway No. 2 in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of person interested
				Rectangle number	Khasra number				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Faridabad	1. Ballabgarh	Sikri	4//	1/1	Private	Non Agricultural	126.465	Mandir Thakur Ji Maharaj
					10/1	Private	Non Agricultural	430.152	Mandir Thakur Ji Maharaj
					10/2	Private	Agricultural	25.293	Uday Ram S/o Govind Singh
					11	Private	Agricultural	440.878	Mandir Thakur Ji Maharaj
					20	Private	Agricultural	464.055	Mandir Thakur Ji Maharaj
					21	Private	Agricultural	66.539	M/s Mahavir Avon Kausik Pvt. Ltd.
				5//	5 Min	Private	Non Agricultural	Less Than Marla	Uday Ram S/o Govind Singh
					6 Min	Private	Non Agricultural	227.637	Uday Ram S/o Govind Singh
					15 Min	Private	Agricultural	278.223	Uday Ram S/o Govind Singh, Puran S/o Govind Singh S/o Kishan Sahay
					16/1	Private	Agricultural	25.293	Mandir Thakur Ji Maharaj
					16/2 Min	Private	Agricultural	278.223	Puran S/o Govind Singh S/o Kishan Sahay
					25/1 Min	Private	Agricultural	252.930	Puran S/o Govind Singh S/o Kishan Sahay, Gyatri Devi W/o Hari Shankar
					25/2	Private	Non Agricultural	541.712	M/s Mahavir Avon Kausik Pvt. Ltd.
				8//	4 Min	Private	Agricultural	25.293	Mange Ram S/o Govind, Gayatri W/o Hari Sankar
					5/1 Min	Private	Agricultural	202.344	Smt. Gyatri Devi W/o Hari Shankar, Mange Ram S/o Govind
					5/2 Min	Private	Agricultural	628.973	Nitin Sath S/o Vijay Sath, Vijay Sath S/o Omparkash Khanakast Punit Goyal S/o Anil Goyal Pattedar
					144	Panchayat	Path	25.293	Panchayat
					6	Private	Agricultural	617.346	Virender Mohan S/o R S, Hiranand S/o Tulsaram, Sukhpal Singh S/o Dalip Singh, Rajiv S/o Bhagat Ram
					7 Min	Private	Agricultural	252.930	Smt. Saroj Rani W/o Ramsaroop S/o Jyoti Parsad
					14 Min	Private	Agricultural	252.930	Smt. Pushpa W/o Vishvbandhu S/o Lajpatrai
					15	Private	Agricultural	622.488	Satya Bhushan S/o R.S, Hiranand S/o Tulsaram, Sukhpal Singh S/o Dalip Singh, Rajiv S/o Bhagat Ram
					16	Private	Agricultural	522.766	M/s Satish Build Well Pvt. Ltd.
					17/1	Private	Agricultural	101.172	M/s Satish Build Well Pvt. Ltd.
					17/2 Min	Private	Agricultural	252.930	Ashu S/o Vishv Bandhu S/o K L R kabja Jwahr Singh etc.
					24/1 Min	Private	Agricultural	393.516	Vishvbandhu S/o Laj Patrai
					24/2	Private	Agricultural	591.828	Chati Lal S/o Hiralal S/o Girdhari Khanakast Saroop Singh S/o Lakhram Pattedar
					25 Min	Private	Agricultural	25.320	Chati Lal S/o Hiralal S/o Girdhari Khanakast Saroop Singh S/o Lakhram Pattedar
				14//	3 Min	Private	Agricultural	101.172	Vishvbandhu S/o Laj Patrai
					4/1	Private	Agricultural	278.223	Vishvbandhu S/o Laj Patrai
					26	Private	Agricultural	622.579	Chati Lal S/o Hiralal S/o Girdhari Khanakast Saroop Singh S/o Lakhram Pattedar
					7	Private	Agricultural	629.349	Chati Lal S/o Hiralal S/o Girdhari Khanakast Saroop Singh S/o Lakhram Pattedar

				8 Min	Private	Agricultural	429.981	Sh. Lakshmi Devi W/o Jile Singh, Mahavir, Omvir, Dalvir, Ranvir S/o and Smt. Bhukai, Raj Pyari D/o Naryan Singh
				13 Min	Private	Agricultural	379.395	Sh. Lakshmi Devi W/o Jile Singh, Mahavir, Omvir, Dalvir, Ranvir S/o and Smt. Bhukai, Raj Pyari D/o Naryan Singh
				14 Min	Private	Agricultural	644.729	Anil Kumar S/o Bhola Ram S/o Udodas, Smt. Kajal Arora W/o Anil Kumar Malik Kabja Jagjit Singh, Krishan Pal Singh Pisan or Smt. Kiran Bai D/o Hari Singh
				Path 145	Panchayat	Path	50.586	Panchayat Deh
				17	Private	Agricultural	558.934	M/s Banda Cansisain Pvt. Ltd
				18/1	Private	Agricultural	202.344	M/s Banda Cansisain Pvt. Ltd
				18/2 Min	Private	Agricultural	303.516	Smt. Lakshmi Devi W/o Jile Singh, Mahavir, Omvir, Dalvir, Ranvir S/o and Smt. Bhukai, Raj Pyari D/o Naryan Singh
				23/1	Private	Agricultural	252.930	Savita Lakra, Siwani Lakra, Kumari Asi Lakra or Smt. Lakshmi Widow Jile Singh
				23/2	Private	Agricultural	780.351	Anand S/o Shanti Saroop S/o Moher Chand
				24	Private	Agricultural	25.293	Anand S/o Shanti Saroop S/o Moher Chand
			19//	2 Min	Private	Agricultural	227.637	Jeet Singh S/o Hajara Singh
				3/1 Min	Private	Agricultural	25.293	Jeet Singh S/o Hajara Singh
				3/2	Govt.	Non Agricultural	817.428	Govt. of India
				8	Govt.	Non Agricultural	836.875	Govt. of India
				9 Min	Private	Agricultural	278.223	Jeet Singh S/o Hajara Singh
				12/1 Min	Private	Agricultural	252.930	Jagram S/o Lalchand S/o Ganga Sahaye
				12/2	Govt.	Non Agricultural	278.223	Govt. of India
				13	Govt.	Non Agricultural	536.980	Govt. of India
				19/1	Panchayat	Non Agricultural	838.075	Panchayat Deh
				19/2	Private	Non Agricultural	227.637	Jagram S/o Lalchand S/o Ganga Sahaye
				20 Min	Private	Agricultural	25.293	Jagram S/o Lalchand S/o Ganga Sahaye
				21	Private	Non Agricultural	252.930	Ashok, Sunil, Jai Bhagwan, Harsh S/o and Smt. Geeta, Rajshwari D/o and Smt. Kanti Devi Widow Babu Ram, Gangaram, Amar Singh, Rajender S/o Amichand, Asharam S/o Munshi Ram
				22	Panchayat	Non Agricultural	838.075	Panchayat Deh
			24//	148 Path	Panchayat	Path	25.293	Panchayat Deh
				1 Min	Private	Agricultural	278.523	Raj Kumar, Kanwar Singh S/o Ratan Singh S/o Muktyar Singh, M/s Royal Imbodri Khanakast Satish Chand S/o Jagdish Chand
				2	Panchayat	Non Agricultural	838.075	Panchayat Deh
				9	Private	Agricultural	105.257	Raj Kumar, Kanwar Singh S/o Ratan Singh S/o Muktyar Singh
				10/1	Private	Agricultural	731.818	Raj Kumar, Kanwar Singh S/o Ratan Singh S/o Muktyar Singh
				10/2	Private	Non Agricultural	177.051	M/s J C Inter Prises Pvt. Ltd. Smt. Kamla Bai Widow and Rajender S/o Hansraj, Santosh W/o vinod, M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd., M/s Bhu Lal Ji Water India Pvt. Ltd. Khanakast M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd Pattedar
				147 Path	Panchayat	Path	55.872	Panchayat Deh

					11/1	Private	Non Agricultural	50.586	M/s J C Inter Prises Pvt. Ltd. Smt. Kamla Bai Widow. and Rajender S/o Hansraj, Santosh W/o vinod, M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd., M/s Bhu Lal Ji Water India Pvt. Ltd. Khanakast M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd Pattedar
					11/2	Private	Non Agricultural	782.204	Bhupender S/o Sultan S/o Mukthiyar Singh, Smt. Naryani Devi W/o Mahavir and Mahavir S/o Ratan Lal
					20	Private	Agricultural	859.190	M/s Rising Education Society
					21	Private	Agricultural	285.748	M/s Rising Education Society
				25//	15	Private	Agricultural	177.051	M/s J C Inter Prises Pvt. Ltd. Smt. Kamla Bai Widow and Rajender S/o Hansraj, Santosh W/o vinod, M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd., M/s Bhu Lal Ji Water India Pvt. Ltd. Khanakast M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd Pattedar
					16	Private	Agricultural	202.344	M/s J C Inter Prises Pvt. Ltd. Smt. Kamla Bai Widow and Rajender S/o Hansraj, Santosh W/o vinod, M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd., M/s Bhu Lal Ji Water India Pvt. Ltd. Khanakast M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd Pattedar
					25/1	Private	Agricultural	303.516	M/s J C Inter Prises Pvt. Ltd. Smt. Kamla Bai Widow and Rajender S/o Hansraj, Santosh W/o vinod, M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd., M/s Bhu Lal Ji Water India Pvt. Ltd. Khanakast M/s Swraj Saini Engineering Pvt. Ltd Pattedar
					25/2	Private	Non Agricultural	556.446	M/s Rising Education Society
				29//	4 Min	Panchayat	Non Agricultural	303.516	Panchayat Deh
					5/1	Private	Non Agricultural	126.465	Panchayat Deh Khanakast Rati S/o Sukkan S/o Balla R/o Sahpur Kurdh Gair Maurusi
					150 Path	Panchayat	Path	50.586	Panchayat Deh
					5/2	Private	Agricultural	784.083	Vinod Kumar, Sanjay Kumar S/o Ramsaran, Kailash Chand S/o Ramsaran Pattedar
					6	Private	Non Agricultural	758.790	Vinod Kumar, Sanjay Kumar S/o Ramsaran Khanakast Kailash Chand S/o Ramsaran Pattedar
					7	Panchayat	Non Agricultural	177.051	Panchayat Deh
					14/1	Panchayat	Non Agricultural	177.051	Panchayat Deh
					14/2	Private	Agricultural	202.344	Vinod Kumar, Sanjay Kumar S/o Ramsaran, Kailash Chand S/o Ramsaran
					15	Private	Agricultural	531.153	Vinod Kumar, Sanjay Kumar S/o Ramsaran Khanakast Kailash Chand S/o Ramsaran Pattedar
					16	Private	Agricultural	25.293	Girish Kumar, Pankaj Kumar S/o Mangat Ram S/o Sohan Lal
					17/1	Private	Agricultural	682.911	Girish Kumar, Pankaj Kumar S/o Mangat S/o Sohan Lal
					17/2	Panchayat	Non Agricultural	429.981	Panchayat Deh
					24/1	Panchayat	Non Agricultural	428.017	Panchayat Deh
					24/2	Private	Agricultural	505.860	Girish Kumar, Pankaj Kumar S/o Mangat S/o Sohan Lal
				36//	4/1	Panchayat	Non Agricultural	56.121	Panchayat Deh

				4/2/1	Private	Agricultural	151.758	Girish Kumar, Pankaj Kumar S/o Mangat S/o Sohan Lal
				4/3/2	Private	Agricultural	227.637	Inder Pal S/o Takhar Singh
				7 Min	Private	Agricultural	505.860	Mahender Singh S/o Takuhar Singh, Dharm Singh S/o Digamber Singh, Singhran S/o Digamber
				14 Min	Private	Agricultural	202.344	Singh Ram S/o Digamber, Nathi Singh S/o Digamber Singh
				26 Min	Private/ Panchayat	Non Agricultural	278.223	Mahender Singh etc. Mudra Khewat No. 425 Smt. Madhu Singh W/o Uday Singh Smt. Siadai Widow Rohtash, Ombati Widow, Momjeet, Rinku S/o Jeet Singh, Sangita W/o Devender and Panchayat
				78	Wakef Board	Buried Land	531.153	Haryana Wakaf Board
				116 Min	Private	Non Agricultural	252.930	Netram S/o Fool Chand S/o Chetram and Prem wati W/o Lakhmi Chand, Dinesh S/o Pahlad
				115 Min	Private	Aabadi	343.224	Shamlat Deh
				103 Path	Panchayat	Path	25.293	Panchayat Deh
				111	Panchayat	Aabadi	50.586	Panchayat Deh Makbuja Vashindgan
			45//	104	Panchayat	Aabadi	75.879	Panchayat Deh
				3	Private	Agricultural	50.586	Jeet Singh S/o Kishori Singh S/o Kishan Ram, Rinko S/o Jeet Singh, Vikram S/o Birbal, Neeraj Choudhary S/o Yogender Singh, Umesh Kumar, Pardeep Kumar S/o Bastiram
				4 Min	Private	Agricultural	303.516	Jeet Singh S/o Kishori Singh S/o Kishan Ram, Rinko S/o Jeet Singh, Vikram S/o Birbal, Neeraj Choudhary S/o Yogender Singh, Umesh Kumar, Pardeep Kumar S/o Bastiram, Jai Kishan S/o Dharm Singh, Nahar Singh, Mohan Singh S/o Birbal Singh, Ajay S/o Bahadur, Abdul S/o Israil, Rakesh S/o Bahadur, Brijal S/o Ranjeet
				7 Min	Private	Non Agricultural	25.293	Smt. Siadai Widow Rohtash, Babu Singh, Lakpat Singh, Sher Singh S/o Omvir, Harpal Singh S/o Khana Singh, Omwati Widow Momjit
				8	Private	Non Agricultural	202.344	Smt. Siadai Widow Rohtash, Babu Singh, Lakpat Singh, Sher Singh S/o Omvir, Harpal Singh S/o Khana Singh
				117 Min	Private	Plots	761.313	Harpal S/o Patram, Gyasi S/o Phoolan, Mattu S/o Alhabaksh, Badlu S/o Navi Baksh, Kamal Singh S/o Badlu, Hari Singh S/o Nanuwa, Ram Dutt S/o Pooran, Rohtas S/o Parbhati
				26	Private	Non Agricultural	75.879	Deepchand, Roopchand S/o Harchandi, Dinesh, Durga Parsad, Rakesh, Sanjay, Mukesh Kumar, Shiv Kumar S/o Lakhi S/o Nanakchand
				27 Min	Private	Non Agricultural	177.051	Deepchand, Roopchand S/o Harchandi, Dinesh, Durga Parsad, Rakesh, Sanjay, Mukesh Kumar, Shiv Kumar S/o Lakhi S/o Nanakchand
				13 Min	Private	Non Agricultural	75.879	Lakhmi S/o Nanak Chand, Atar Singh S/o Chander Singh, Khajan S/o Lalchand, Moti Ram S/o Khajan, Smt. Malwati W/o Mamchand
				18/1 Min	Private	Non Agricultural	328.809	Indraj, Rajpal, Sodan, Netram S/o Hari Singh S/o Ghan Shyam, Smt. Vijay Lakshmi W/o Roopchand, Joginder Singh, Surender Singh S/o Hirdaram

4560 60/10-4

					22 Min	Private	Non Agricultural	101.172	M/s Fransa, Anil Kumar S/o Ramesh Chand, Dharmvir S/o Mhillar, Hariom, Omvir S/o and Smt. Mayawati Widow Mahavir, M/s Keshav Dirik Ram Chand S/o Hotiram, Bhagmal S/o Khecharu, Gyan Wati W/o Om Parkash, Mohan deep Sodi S/o Gurcharan, Narayan Singh S/o Hetlal, Ramwati W/o Naryan Singh, Sohan Pal S/o Takchand, Smt. Vimla Rani W/o G R P Goyal, Agay S/o Fathe Chand, Virender, Rajender S/o Hukam Singh, Namchand S/o Netram, Shashikant S/o Gurdial, Gurmeet S/o Devender Khanakast M/s Vadhwa Engineering Company Pattedar
					23/1 Min	Private	Non Agricultural	19.727	M/s Fransa, Anil Kumar S/o Ramesh Chand, Dharmvir S/o Bhillar, Hariom, Omvir S/o and Smt. Mayawati Widow Mahavir, Ashok S/o V K Gupta, Hiranand S/o Chabildas, Ramchand S/o Choti Lal, Sohan Pal S/o Takchand, Smt. Vimla Rani W/o G R P Goyal, Agay S/o Fathe Chand, Virender, Rajender S/o Hukam Singh, Namchand S/o Netram, Shashikant S/o Gurdial, Gurmeet S/o Devender, Khanakasht M/s Wadhwa Engineering Co. Pattedar
					23/2/2 Min	Private	Agricultural	Less Than Marla	M/s Johar Motors Pattedar Indian Oil Corporation Ltd. Pattedar
					28/2	Private	Non Agricultural	328.809	Fathe Singh, Rajender Singh S/o Atarbai Widow, Chandarkali, Parkash Wati, Rajwati, Amarbai D/o and Smt. Atar Bai Widow Murl Singh S/o Bedram, Rajender Singh, Surender Singh S/o and Smt. Kunes, kalash and Alka D/o and Smt. Khajani Widow Rohtash S/o Ramchand, Girraj S/o Ramchand, Smt. Madhu W/o Narender Singh S/o Angad and Yashpal Singh S/o Angad Singh, M/s Johar Motors Khanakasht Indian Oil Corporation Ltd.
					Road	Govt.	Road	357.442	Haryana Government.
				52//	2	Private	Non Agricultural	303.516	M/s Fransa, Anil Kumar S/o Ramesh Chand, Dharmvir S/o Bhillar, Hariom, Omvir S/o and Smt. Mayawati Widow Mahavir, Ashok S/o V K Gupta, Hiranand S/o Chabildas, Ramchand S/o Choti Lal, Sohan Pal S/o Takchand, Smt. Vimla Rani W/o G R P Goyal, Agay S/o Fathe Chand, Virender, Rajender Ss/o Hukum Chand, Nek Chand S/o Net Ram, Shashi Kant S/o Gurdial, Gurmeet S/o Devender Khanakasht M/s Wadhwa Engineering Co. Pattedar
					3/1/2.	Private	Agricultural	126.465	M/s Johar Motors Pattedar Indian Oil Corporation Ltd. Pattedar

					3/2 Min	Private	Agricultural	126.465	Fathe Singh, Rajender Singh S/o Atarbai Widow, Chandarkali, Parkash Wati, Rajwati, Amarbai Ds/o Murali, Smt. Savitri W/o Chandar Pal S/o Ram Maher, Lalu Parsad S/o Prabhu, Gajraj, Balram S/o Ramkishan, Smt. Chanda Devi W/o Haridutt, Durga Parsad S/o Shiv Charan, Gopal S/o Mohan Shyam, Rajpal Singh S/o Shiv Dharan, Sukhpal Singh, Sukhvir Singh, Sher Singh S/o Bhoop Singh, Narender Kumar Panday, M/s Johar Motors Pvt. Ltd. Jagdish S/o Ran Singh, Jile Singh, Babu Lal Ss/o Ran Singh, Sanjeev Kumar S/o and Smt. Anjana, Seema Ds/o and Ishwar Devi Wd/o Ram Dhan, Smt. Rekha W/o Amrender, Parminder Atreja S/o Hukum Chand, Surender Kumar S/o Hridaye Ram, Pawan S/o Om Prakash
					8/1 Min	Private	Agricultural	177.051	Fathe Singh, Rajender Singh S/o Atarbai Widow, Chandarkali, Parkash Wati, Rajwati, Amarbai D/o Kamil, Smt. Savitri W/o Chandar Pal S/o Ram Maher, Lalu Parsad S/o Parbhu, Gajraj, Balram S/o Ramkishan, Smt. Chanda Devi W/o Haridutt, Durga Parsad S/o Shiv Charan, Gopal S/o Mohan Shyam, Rajpal Singh S/o Shiv Dharan, Sukhpal Singh, Sukhvir Singh, Sher Singh S/o Bhoop Singh, Narender Kumar Panday, M/s Johar Motors Pvt. Ltd. Jagdish S/o Ran Singh, Jile Singh, Babulal Ss/o Ran Singh, Sanjeet Kumar S/o and Smt Anjna, Seema D/o and Ishwar Devi Widow Ramdhan, Smt Rakha W/o Amrender Atraja W/o Hukam Chand, Surender Kumar S/o Hirderam, Pawan S/o Omparkash
					8/2	Private	Non Agricultural	227.637	Smt. Meena Rani D/o Omparkash and Smt. Anjum D/o Sudip, Smt. Malwati W/o Mamchand S/o Shrichand, Premraj S/o Balram
					9	Private	Non Agricultural	328.809	M/s Fransa, Deepak Kishore S/o Dr. Yogender Singh, Sashi Kanta S/o Gurdial, Gurmeet S/o Devender, Mohandeep S/o Gurcharan, Nemchand S/o Netram, Birender, Rajender Singh Ss/o Hukam Singh, Pushpa W/o Babu Singh, Lalit Kumar S/o Hiranand, Ajay S/o Fathe Chand, Smt. Bimla Rani W/o G R P, Sohan Pal S/o Tak Chand, Smt Maya W/o Purusotam, Santosh W/o Mahesh Chand, Ramwati W/o Mahender, Sohan Pal S/o Rajender, Dropadi Devi W/o Om Saran, Om Saran S/o Ram Singh, Hemlata W/o Virender Singh, Govind Singh S/o Bhagwan Singh, Harkesh Singh S/o Bikhari Singh, Raju Singh, Dinesh Singh Ss/o Krishan Pal, Savita W/o Virender, Lata W/o Hetram, Usha W/o Kuldeep, Smt. Renu W/o Birender Singh, Smt. Bimla Rani W/o Rajender Hudda etc. Khanakast Ashok Wadhwa and Smt Madhu W/o Ashok Wadhwa, Parvesh Mishra S/o S A Mishra and Ranvir Singh Narang S/o S Narang etc. Pattedar

456040/10-5

				12	Private	Non Agricultural	328.809	Maya W/o Purusootam, Santosh W/o Mahesh chand, Ramwati W/o Mahender, Sohan Pal S/o Rajender, Dropadi W/o Om Saran, Hemlata W/o Birender, Harkesh S/o Bhikkan Singh, Raj, Dinesh S/o Krishan Pal, Smt. Savita W/o Bijender Singh, Usha W/o Kuldeep, Lata W/o Hotram, Urmila W/o Ramvatar khanakast M/s Wadhwa Engineering
				13 Min	Private	Agricultural	556.446	Smt. Meena Rani D/o Omparkash and Smt. Anjum D/o Sudip, Smt. Malwati W/o Mamchand S/o Shrichand, Smt. Vidyawati W/o Bheem Singh, Jagdish, Jile Singh, Babulal Ss/o Ran Singh
				156 Path	Panchayat	Path	50.586	Panchayat Deh
				18	Private	Agricultural	607.032	Om Parkash S/o Daya Ram, Smt. Shanti Devi W/o Ram Kishan, Smt. Kamlesh Devi W/o Khemchand, Lalit Kumar S/o Nanak Chand, Suresh Kumar S/o Nanak Chand, Rajvir Singh, Subhash Chand S/o Tolaram S/o Jagram, Suresh Kumar S/o Netram, Smt. Manjila Devi W/o Kedar Singh S/o Atam Singh, Farid Khan S/o Hasmal, Smt. Sunita W/o Krishan Kumar, Smt. Roopo Begam W/o Rumman, Hurun Baruri W/o Idukhan
				19	Private	Agricultural	202.344	M/s Mela Ram, Om Parkash Vedi and Sons Estate Pvt. Ltd.
				22	Private	Agricultural	126.465	V N Engineers
				23	Private	Agricultural	632.325	Milan Vatika Resorts
			60//	2/1	Private	Agricultural	177.051	Smt. Simran W/o Kosinder Singh S/o Guruvachan Singh, Mohini Arora W/o Bhagwan Das
				2/2 Min	Private	Agricultural	252.930	Milan Vatika Resorts Pvt. Ltd., Karamchand S/o Mithan Lal, Dharam Singh, Nathi, Sangram Ss/o Dimbar Singh
				3 Min	Private	Agricultural	328.809	Milan Vatika Resorts Pvt. Ltd., Karamchand S/o Mithan Lal, Dharam Singh, Nathi, Sangram Ss/o Dimbar Singh
				8	Private	Agricultural	25.293	Jaspreet S/o Avtar Singh
				9/1	Private	Agricultural	632.325	Jaspreet S/o Avtar Singh
				9/2	Private	Agricultural	177.051	Smt. Mohini Arora W/o Bhagwan Das
				12/1	Private	Agricultural	177.051	Smt. Rita W/o R K S/o B R, Munesh S/o B R S/o Lakshman Das
				12/2	Private	Agricultural	632.325	Charanpreet S/o Preet pal Singh
				19/1 Min	Private	Agricultural	682.766	Smt. Lakshmi Devi W/o Rajender Parsad S/o Ramgopal, Mahender Singh, Bijender Singh, Inder Pal Singh Ss/o Thakar Singh
				19/2	Private	Agricultural	177.051	Smt. Rita W/o R K S/o B R, Munesh S/o B R S/o Lakshman Das
				22/1	Private	Agricultural	126.465	Smt. Rita W/o R K S/o B R, Munesh S/o B R S/o Lakshman Das
				22/2	Private	Agricultural	581.739	M/s Gupta Engineering, Smt. Rukmani Gupta W/o Mahesh kumar
				158 Path	Panchayat	Path	Less Than Marla	Panchayat Deh
			67//	2/1/1	Private	Agricultural	50.586	Anil S/o Satpal and Smt Sikha W/o Anil
				2/1/2	Private	Agricultural	25.293	M/s Punit Marken Tile & Kodiam Pvt. Ltd, M/s Diwan Finerest Pvt. Ltd., Jitender, Devender Ss/o Shyam Sunder, Smt Rachna W/o Mohan and Smt Manju W/o Pawan, Dinesh Kumar S/o Girraj Parsad, Saurav S/o Daulat Ram
				2/2	Private	Agricultural	935.841	M/s S D L Bhati Pvt. Ltd

				9/1 Min	Private	Non Agricultural	930.168	M/s S D L Bhati Pvt. Ltd Bajra Director Shyam Lal, Kailash Kumar S/o Nand Lal
				9/2	Private	Non Agricultural	75.879	M/s Punit Marken Tile & Kodiam Pvt. Ltd, M/s Diwan Finerest Pvt. Ltd., Jitender Devender Ss/o Shyam Sunder, Smt Rachna W/o Mohan and Smt Manju W/o Pawan, Dinesh Kumar S/o Girraj Parsad, Saurav S/o Daulat Ram
				12/1/1	Private	Non Agricultural	75.879	Smt. Simran Arora W/o Joginder Singh S/o Sardar Guruvachan Singh Arora, Ramkishan, Om Parkash, Surajmai, Budhram Rajdev Ss/o Shiv Lal
				12/2/2	Private	Non Agricultural	885.255	M/s Akasna Lising Company
				13	Private	Non Agricultural	25.293	M/s Akasna Lising Company
				18	Private	Non Agricultural	177.051	M/s Akasna Lising Company
				19/1/1	Private	Non Agricultural	674.479	M/s Akasna Lising Company
				19/2/2	Private	Non Agricultural	126.465	Smt. Santosh Kukreja W/o Tirlok Chand Kukreja
				22/1 Min	Private	Agricultural	202.344	Jaspal Singh S/o Gurdev Singh, Sukhdev Singh S/o Guruvachan Singh, Sacha Ghar Faridabad Sakha, M/s Mors Investment
				22/2	Private	Agricultural	337.239	Uday Singh S/o Jagmal Singh, Dheeraj Singh, Pawan Singh, Abhay Singh Ss/o and Smt Manju Devi Widow Jaiver Singh, Mange Ram S/o Harjari, Mansingh S/o Jagmal, Vinod Kumar S/o Girdhari S/o Asdamal
				23	Private	Agricultural	379.395	Uday Singh S/o Jagmal Singh, Dheeraj Singh, Pawan Singh, Abhay Singh Ss/o and Smt Manju Devi Widow Jaiver Singh, Mange Ram S/o Harjari, Mansingh S/o Jagmal, Vinod Kumar S/o Girdhari S/o Asdamal
				160 Path	Panchayat	Path	50.586	Panchayat Deh
			69//	2/1/1	Private	Agricultural	227.637	Jaspal Singh S/o Gurdev Singh, Sukhdev Singh S/o Guruvachan Singh, M/s Mors Investment Casting Ballabgarh, M/s Sacha Ghar Faridabad Branch
				2/2/2	Private	Agricultural	25.293	Bhupender S/o Sultan S/o Mukthar Singh, Smt. Naryani Devi W/o Mahavir and Mahavir S/o Ratan Lal
				3	Private	Agricultural	733.497	Bhupender S/o Sultan S/o Mukthar Singh, Smt. Naryani Devi W/o Mahavir and Mahavir S/o Ratan Lal
				8	Private	Agricultural	50.586	Bhupender S/o Sultan S/o Mukthar Singh, Smt. Naryani Devi W/o Mahavir and Mahavir S/o Ratan Lal
				Total of Village			48151.985	

[F. No. NHAI/CMU/MTR/6-laning/3D/Faridabad/2010]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.